



SNBP International & Senior Secondary School, Chikhali, Pune.

Affiliation No. 1130703

Academic session 2024-25

Class Notes/Term 2

SUBJECT: HINDI

CLASS -6

LS.- (व्याकरण -पाठ -१८ वाक्य)

Prepared By: DEEPIKA MEHRA

Given date -

Prepared date -

वाक्य-ऐसा शब्द-समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट कर दे, वाक्य कहलाता है।

वाक्य के दो अंग होते हैं:

१) उद्देश्य- वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं।

जैसे- गाँधीजी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई।

इस वाक्य में गाँधीजी के विषय में कुछ बताया गया है। ये उद्देश्य हैं। "उद्देश्य" को कर्ता भी कहते हैं।

२) विधेय - वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, वह विधेय कहलाता है।

जैसे-राम मन लगाकर पढ़ता है।

इस वाक्य में "पढ़ता है" कर्म है।

वाक्य के भेद-

वाक्य के भेद के दो आधार हैं-

(क) रचना के आधार पर वाक्य के भेद

(ख) अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद

(क) रचना के आधार पर

रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं-

(१) सरल या साधारण वाक्य- जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य (कर्ता) और एक ही विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है।

जैसे- बाघ घूम रहा है।

(२) संयुक्त वाक्य - जहाँ दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी समुच्चयबोधक द्वारा जुड़े रहते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।

जैसे- नेहा ने खाना खाया, बस्ता उठाया और स्कूल चली गई।

(३) मिश्रित वाक्य- जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य गौण होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं।

जैसे-रवि आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है।

(ख) अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद-
अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद हैं -

- १) **विधानार्थक वाक्य-** जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने का सामान्य बोध होता है, उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं।
जैसे-राकेश व्यायाम कर रहा है। (काम का करना)
- २) **निषेधात्मक या नकारात्मक-**जब वाक्य से किसी बात के न होने या काम के करने का बोध हो, उसे निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं।
जैसे-आयुष व्यायाम नहीं कर रहा है।
- ३) **इच्छावाचक वाक्य-**जिन वाक्यों से दूसरों के लिए आशीर्वाद, इच्छा आदि का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे-अब चलिए , बहुत थक गए हैं।
- ४) **प्रश्नवाचक वाक्य-** जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे-तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है?
- ५) **आज्ञावाचक वाक्य-** जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं।
जैसे-सदा सत्य बोलो।
- ६) **संकेतवाचक वाक्य-** जिस वाक्य के द्वारा संकेत या शर्त का बोध हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है।
जैसे-वर्षा रुक जाती तो बाजार जाते। (संकेत)
- ७) **विस्मयवाचक वाक्य-** जिन वाक्यों के द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे-अरे! तुम आ गए। (विस्मय)
- ८) **संदेहवाचक वाक्य-** जिन वाक्यों में काम होने के प्रति संदेह या सम्भावना हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे-आज वर्षा हो सकती है। (संभावना)